

Mat

Chapter 1

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυὶδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.
पुस्तक उत्पत्ति-की यीशु मसीह-की पुत्र दाऊद-के पुत्र इब्राहीम-के
[G0976](#) [G1078](#) [G2424](#) [G5547](#) [G5207](#) [G1138](#) [G5207](#) [G0011](#)

इब्राहीम के वंशज दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है:

2 Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ; Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ; Ἰακώβ
इब्राहीम-ने उत्पन्न-किया उस इसहाक-को इसहाक-ने और उत्पन्न-किया उस याकूब-को याकूब-ने
[G0011](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2464](#) [G2464](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2384](#) [G2384](#)

δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ;
और उत्पन्न-किया उस यहूदा-को और उन भाइयों-को उस-के
[G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2455](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0080](#) [G0846](#)

इब्राहीम का पुत्र था इसहाक और इसहाक का पुत्र हुआ याकूब। फिर याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए।

3 Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ;
यहूदा-ने और उत्पन्न-किया उस पेरेस-को और उस जेरह-को से उस तामार-से
[G2455](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G5329](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2196](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2283](#)

Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρῶμ; Ἑσρῶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ;
पेरेस-ने और उत्पन्न-किया उस हेस्रोन-को हेस्रोन-ने और उत्पन्न-किया उस राम-को
[G5329](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2074](#) [G2074](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G0689](#)

यहूदा के बेटे थे फिरिस और जोरह। (उनकी माँ का नाम तामार था।) फिरिस, हिस्लोन का पिता था। हिस्लोन राम का पिता था।

4 Ἀράμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμινὰδὰβ; Ἀμινὰδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών;
राम-ने और उत्पन्न-किया उस अम्मीनादाब-को अम्मीनादाब-ने और उत्पन्न-किया उस नहशोन-को
[G0689](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G0284](#) [G0284](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G3476](#)

Ναασσών δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών;
नहशोन-ने और उत्पन्न-किया उस सलमोन-को
[G3476](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G4533](#)

राम अम्मीनादाब का पिता था। अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन का जन्म हुआ।

5 Σαλμών δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόεζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ; Βόεζ δὲ ἐγέννησεν
सलमोन-ने और उत्पन्न-किया उस बोअज़-को से उस राहब-से बोअज़-ने और उत्पन्न-किया
[G4533](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G1003](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4477](#) [G1003](#) [G1161](#) [G1080](#)

τὸν Ἰωβῆδ ἐκ τῆς Ῥούθ; Ἰωβῆδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί;
उस ओबेद-को से उस रूथ-से ओबेद-ने और उत्पन्न-किया उस यिशै-को
[G3588](#) [G5601](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4503](#) [G5601](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2421](#)

सलमोन से बोअज़ का जन्म हुआ। (बोअज़ की माँ का नाम राहब था।) बोअज़ और रूथ से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद यिशै का पिता था।

6 Ἰεσσαί δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα. Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν
यिशै-ने और उत्पन्न-किया उस दाऊद-को उस राजा-को दाऊद-ने और उत्पन्न-किया उस
[G2421](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G1138](#) [G3588](#) [G0935](#) [G1138](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#)

Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου;
सुलैमान-को से उस उस-की ऊरिय्याह-की
[G4672](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3588](#) [G3774](#)

और यिश् से राजा दाऊद पैदा हुआ। सुलैमान दाऊद का पुत्र था (जो उस स्त्री से जन्मा जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी।)

- 7 Σολομών δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ; Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά;
सुलैमान-ने और उत्पन्न-किया उस रहबाम-को रहबाम-ने और उत्पन्न-किया उस अबिय्याह-को
[G4672](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G4497](#) [G4497](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G0007](#)
- Ἀβιά δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ;
अबिय्याह-ने और उत्पन्न-किया उस आसा-को
[G0007](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G0760](#)

सुलैमान रहबाम का पिता था। और रहबाम अबिय्याह का पिता था। अबिय्याह से आसा का जन्म हुआ।

- 8 Ἀσάφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ; Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ;
आसा-ने और उत्पन्न-किया उस यहोशापात-को यहोशापात-ने और उत्पन्न-किया उस योराम-को
[G0760](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2498](#) [G2498](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2496](#)
- Ἰωράμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζία;
योराम-ने और उत्पन्न-किया उस उज्जिय्याह-को
[G2496](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G3604](#)

और आसा यहोशाफात का पिता बना। फिर यहोशाफात से योराम और योराम से उज्जिय्याह का जन्म हुआ।

- 9 Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωاثάμ; Ἰωθαὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχαζ;
उज्जिय्याह-ने और उत्पन्न-किया उस योताम-को योताम-ने और उत्पन्न-किया उस आहाज़-को
[G3604](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2488](#) [G2488](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G0881](#)
- Ἀχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐζεκία;
आहाज़-ने और उत्पन्न-किया उस हिजकिय्याह-को
[G0881](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G1478](#)

उज्जिय्याह योताम का पिता था और योताम, आहाज का। फिर आहाज से हिजकिय्याह।

- 10 Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσή; Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς;
हिजकिय्याह-ने और उत्पन्न-किया उस मनश्शे-को मनश्शे-ने और उत्पन्न-किया उस आमोन-को
[G1478](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G3128](#) [G3128](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#)
- Ἀμώς; Ἀμώς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσία;
आमोन-को आमोन-ने और उत्पन्न-किया उस योशिय्याह-को
[G0301](#) [G0301](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2502](#)

और हिजकिय्याह से मनश्शेह का जन्म हुआ। मनश्शेह आमोन का पिता बना और आमोन योशिय्याह का।

- 11 Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς
योशिय्याह-ने और उत्पन्न-किया उस यकोन्याह-को और उन भाइयों-को उस-के पर उस
[G2502](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2423](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0080](#) [G0846](#) [G1909](#) [G3588](#)
- μετοικεσίας Βαβυλῶνος.
बंधुवाई-के बाबुल-की
[G3350](#) [G0897](#)

फिर इस्राएल के लोगों को बंदी बना कर बेबिलोन ले जाते समय योशिय्याह से यकून्याह और उसके भाइयों ने जन्म लिया।

- 12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος, Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ;
बाद और उस बंधुवाई-के बाबुल-की यकोन्याह-ने उत्पन्न-किया उस शालतीएल-को
[G3326](#) [G1161](#) [G3588](#) [G3350](#) [G0897](#) [G2423](#) [G1080](#) [G3588](#) [G4528](#)
- Σαλαθιήλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβαβέλ;
शालतीएल-ने और उत्पन्न-किया उस जरुब्बाबेल-को
[G4528](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2216](#)

बेबिलोन में ले जाये जाने के बाद यकून्याह शालतिएल का पिता बना। और फिर शालतिएल से जरुब्बाबिल।

13 Ζοροβαβέλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ; Ἀβιούδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίμ;
 जरुब्बाबेल-ने और उत्पन्न-किया उस अबीहूद-को अबीहूद-ने और उत्पन्न-किया उस एल्याकीम-को
[G2216](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G0010](#) [G0010](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G1662](#)

Ἐλιακίμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ;
 एल्याकीम-ने और उत्पन्न-किया उस अज़ोर-को
[G1662](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G0107](#)

तथा जरुब्बाबिल से अबीहूद पैदा हुए। अबीहूद इल्याकीम का और इल्याकीम अज़ोर का पिता बना।

14 Ἀζώρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ; Σαδώκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ;
 अज़ोर-ने और उत्पन्न-किया उस सादोक-को सादोक-ने और उत्पन्न-किया उस आखीम-को
[G0107](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G4524](#) [G4524](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G0885](#)

Ἀχίμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιοῦδ;
 आखीम-ने और उत्पन्न-किया उस एलीहूद-को
[G0885](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G1664](#)

अज़ोर सदोक का पिता था। सदोक से अखीम और अखीम से इलीहूद पैदा हुए।

15 Ἐλιοῦδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ; Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν;
 एलीहूद-ने और उत्पन्न-किया उस एलाज़ार-को एलाज़ार-ने और उत्पन्न-किया उस मत्तान-को
[G1664](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G1648](#) [G1648](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G3157](#)

Ματθάν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ;
 मत्तान-ने और उत्पन्न-किया उस याकूब-को
[G3157](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2384](#)

इलीहूद इलियाज़ार का पिता था और इलियाज़ार मत्तान का। मत्तान याकूब का पिता बना।

16 Ἰακώβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσήφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη
 याकूब-ने और उत्पन्न-किया उस यूसुफ-को उस पति-को मरियम-के से जिस-से उत्पन्न-हुआ
[G2384](#) [G1161](#) [G1080](#) [G3588](#) [G2501](#) [G3588](#) [G0435](#) [G3137](#) [G1537](#) [G3739](#) [G1080](#)

Ἰησοῦς, ὁ λεγόμενος Χριστός,
 यीशु वह कहलाता मसीह
[G2424](#) [G3588](#) [G3004](#) [G5547](#)

और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। जो मरियम का पति था। मरियम से यीशु का जन्म हुआ जो मसीह कहलाया।

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες; καὶ
 सब इसलिए वे पीढ़ियाँ से अब्राहाम-से तक दाऊद-तक पीढ़ियाँ चौदह और
[G3956](#) [G3767](#) [G3588](#) [G1074](#) [G0575](#) [G0011](#) [G2193](#) [G1138](#) [G1074](#) [G1180](#) [G2532](#)

ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος, γενεαὶ δεκατέσσαρες; καὶ ἀπὸ
 से दाऊद-से तक उस बंधुवाई-के बाबुल-की पीढ़ियाँ चौदह और से
[G0575](#) [G1138](#) [G2193](#) [G3588](#) [G3350](#) [G0897](#) [G1074](#) [G1180](#) [G2532](#) [G0575](#)

τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ, γενεαὶ δεκατέσσαρες.
 उस बंधुवाई-के बाबुल-की तक उस मसीह-तक पीढ़ियाँ चौदह
[G3588](#) [G3350](#) [G0897](#) [G2193](#) [G3588](#) [G5547](#) [G1074](#) [G1180](#)

इस प्रकार अब्राहाम से दाऊद तक चौदह पीढ़ियाँ हुईं। और दाऊद से लेकर बंदी बना कर बाबुल पहुँचाये जाने तक की चौदह पीढ़ियाँ, तथा बंदी बना कर बाबुल पहुँचाये जाने से मसीह के जन्म तक चौदह पीढ़ियाँ और हुईं।

- 18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς
 उस और यीशु मसीह-का वह जन्म इस-प्रकार था मंगनी-होने-पर उस
[G3588](#) [G1161](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3588](#) [G1078](#) [G3779](#) [G1510](#) [G3423](#) [G3588](#)
- μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῶ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοῦς, εὐρέθη ἐν
 माता-की उस-की मरियम-की उस यूसुफ-से पहले कि साथ-आने उन-का पाई-गई में
[G3384](#) [G0846](#) [G3137](#) [G3588](#) [G2501](#) [G4250](#) [G2228](#) [G4905](#) [G0846](#) [G2147](#) [G1722](#)
- γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.
 गर्भ-में रखती-हुई से आत्मा-से पवित्र
[G1064](#) [G2192](#) [G1537](#) [G4151](#) [G0040](#)

यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ: जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि (वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है।)

- 19 Ἰωσήφ δὲ, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν
 यूसुफ और वह पति उस-का धर्मी होकर और नहीं चाहकर उस-को
[G2501](#) [G1161](#) [G3588](#) [G0435](#) [G0846](#) [G1342](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3361](#) [G2309](#) [G0846](#)
- δειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.
 बदनाम-करना चाहता-था चुपके-से छोड़-देना उस-को
[G1165](#) [G1014](#) [G2977](#) [G0630](#) [G0846](#)

किन्तु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिये उसने निश्चय किया कि चुपके से वह सगाई तोड़ दे।

- 20 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ, ἄγγελος Κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη
 ये-बातें और उस-की सोचते-हुए देखो दूत प्रभु-का में स्वप्न-में दिखाई-दिया
[G3778](#) [G1161](#) [G0846](#) [G1760](#) [G3708](#) [G0032](#) [G2962](#) [G2596](#) [G3677](#) [G5316](#)
- αὐτῶ, λέγων, Ἰωσήφ, υἱὸς Δαυὶδ, μὴ φοβηθῆς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν
 उस-को कहते-हुए यूसुफ पुत्र दाऊद-के मत डर लेने-को मरियम-को उस
[G0846](#) [G3004](#) [G2501](#) [G5207](#) [G1138](#) [G3361](#) [G5399](#) [G3880](#) [G3137](#) [G3588](#)
- γυναῖκά σου; τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν, ἐκ Πνεύματος ἁγίου.
 पत्नी-को तेरी वह-जो तो मैं उस-में उत्पन्न-हुआ से आत्मा-से है पवित्र
[G1135](#) [G4771](#) [G3588](#) [G1063](#) [G1722](#) [G0846](#) [G1080](#) [G1537](#) [G4151](#) [G1510](#) [G0040](#)

किन्तु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, "ओ! दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है।"

- 21 τέξεται δὲ υἱὸν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν; αὐτὸς γὰρ
 जनेगी और पुत्र-को और रखेगा वह नाम उस-का यीशु वह तो
[G5088](#) [G1161](#) [G5207](#) [G2532](#) [G2564](#) [G3588](#) [G3686](#) [G0846](#) [G2424](#) [G0846](#) [G1063](#)
- σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
 बचाएगा उन लोगों-को उस-के से उन पापों-से उन-के
[G4982](#) [G3588](#) [G2992](#) [G0846](#) [G0575](#) [G3588](#) [G0266](#) [G0846](#)

वह एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा।"

- 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῆ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ
 यह और सब हुआ ताकि पूरा-हो वह कहा-हुआ के-द्वारा प्रभु-के के-द्वारा
[G3778](#) [G1161](#) [G3650](#) [G1096](#) [G2443](#) [G4137](#) [G3588](#) [G2046](#) [G5259](#) [G2962](#) [G1223](#)
- τοῦ προφήτου, λέγοντος,
 उस भविष्यवक्ता-के कहते-हुए
[G3588](#) [G4396](#) [G3004](#)

यह सब कुछ इसलिये हुआ है कि प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा जो कुछ कहा था, पूरा हो:

23 Ἴδου, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ
 देखो वह कुंवारी में गर्भ-में धारण-करेगी और जनेगी पुत्र-को और
[G3708](#) [G3588](#) [G3933](#) [G1722](#) [G1064](#) [G2192](#) [G2532](#) [G5088](#) [G5207](#) [G2532](#)

καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰμμανουήλ, ὃ ἐστὶν μεθερμηνευόμενον, Μεθ'
 रखेंगे वह नाम उस-का इममानुएल जो है अनुवाद-में साथ
[G2564](#) [G3588](#) [G3686](#) [G0846](#) [G1694](#) [G3739](#) [G1510](#) [G3177](#) [G3326](#)

ἡμῶν ὁ Θεός,
 हमारे वह परमेश्वर
[G1473](#) [G3588](#) [G2316](#)

“सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम इममानुएल रखा जायेगा।” (जिसका अर्थ है “परमेश्वर हमारे साथ है।”)

24 ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσήφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ
 जागकर और वह यूसुफ-ने से उस नींद-से किया जैसा आज्ञा-दी-थी उस-को
[G1453](#) [G1161](#) [G3588](#) [G2501](#) [G0575](#) [G3588](#) [G5258](#) [G4160](#) [G5613](#) [G4367](#) [G0846](#)

ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
 वह दूत-ने प्रभु-के और ले-लिया उस पत्नी-को अपनी
[G3588](#) [G0032](#) [G2962](#) [G2532](#) [G3880](#) [G3588](#) [G1135](#) [G0846](#)

जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया।

25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν; καὶ ἐκάλεσεν τὸ
 और नहीं जानता-था उस-को तक जब-तक जना पुत्र-को और रखा वह
[G2532](#) [G3756](#) [G1097](#) [G0846](#) [G2193](#) [G3739](#) [G5088](#) [G5207](#) [G2532](#) [G2564](#) [G3588](#)

ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
 नाम उस-का यीशु
[G3686](#) [G0846](#) [G2424](#)

किन्तु जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया, वह उसके साथ नहीं सोया। यूसुफ ने बेटे का नाम यीशु रखा।